

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन के फायर चीफ बिल बोएस को कैंनेडा का फायर चीफ ऑफ द यीअर का अवॉर्ड दिया गया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (13 सितम्बर, 2021) – आज, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (बी.एफ.ई.एस.) (Brampton Fire and Emergency Services) (BFES) के चीफ बिल बोएस (Bill Boyes) को कैंनेडियन एसोसिएशन ऑफ फायर चीफ्स (सी.ए.एफ.सी.) (Canadian Association of Fire Chiefs) (CAFC) और कैंनेडा के फायर अंडरराइटर्स सर्वे (Fire Underwriters Survey) के द्वारा फायर चीफ ऑफ द यीअर (Fire Chief of the Year) का अवॉर्ड दिया गया। यह सालाना प्रोग्राम, पूरे कैंनेडा में फायर सर्विसिज इंडस्ट्री में श्रेष्ठ व्यक्तियों को सम्मानित करता है।

चीफ बोएस का फायर कैरियर ब्रैम्पटन में शुरू हुआ था, जहां वे पहले फायरफाइटर के तौर पर और बाद में कैप्टन के तौर पर विकसित हुए। 2017 से ब्रैम्पटन के फायर चीफ के तौर पर सेवा देते हुए, वे विभाग के लगातार विकास और शिक्षा के संचालक रहे हैं, साथ ही वे बहुत ही अच्छी किस्म की फायर सेफ्टी और सेवा के लिए प्रतिबद्ध भी रहे हैं। लगातार वृद्धि के मज़बूत समर्थक, चीफ बोएस के अंदर, विविधता, समानता और भागीदारी में सुधार करने के महत्व को लेकर जुनून है और वे जनता के लिए जारी ट्रेनिंग अवसरों तथा वर्चुअल (आभासी) कैरियर सूचना सेशन के द्वारा इसे और मज़बूत बनाते हैं।

कोविड-19 (COVID-19) महामारी शुरू होने के बाद, चीफ बोएस ने फायर चीफ के तौर पर अपनी भूमिका के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए, सिटी की एमरजेंसी मैनेजमेंट (Emergency Management) रिस्पॉंस टीम में लीडरशिप भूमिका की जिम्मेदारी लेते हुए, इस चुनौती के दौरान कम्युनिटी का नेतृत्व करने में मुख्य भूमिका निभाई है।

चीफ बोएस, इनोवेशन के लिए असली चैंपियन हैं। वे विभाग के फायर मास्टर प्लान (Fire Master Plan) के द्वारा, लगातार बी.एफ.ई.एस. और शहर को सफलता की स्थिति में लाने के लिए काम करते हैं। इस वर्ष ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक-पावर्ड ट्रक के साथ फ्रंट-लाइन पम्पर को परिवर्तित करने की बी.एफ.ई.एस. की योजनाओं को मंजूरी दी, जो ग्रीनहाउस गैसों को कम करने और ग्रीन सिटी (Green City) बनने के ब्रैम्पटन के लक्ष्य में सहायक होगा।

चीफ बोएस कार्पोरेशन के समर्पित और सम्मानित मेम्बर हैं। उन्हें काउंसलर रोएना सैंटोस (Rowena Santos) ने नामांकित किया था और पील रीजनल पुलिस चीफ, निशान दुरईअप्पा (Peel Regional Police Chief, Nishan Duraiappah) सहित, सिटी की संपूर्ण लीडरशिप टीम और अनगिनत सहकर्मियों – आंतरिक और कम्युनिटी के अंदर, दोनों के द्वारा उनकी हिमायत की गई थी।

हवाले

“चीफ बोएस को इस अवॉर्ड के लिए बधाई, जिसके वे पूरी तरह से हकदार हैं। वे हमारी लीडरशिप के बहुमूल्य मेम्बर हैं, जो चीफ की भूमिका के हर काम के लिए समर्पित हैं; वे कम्युनिटी बिल्डर, सुरक्षा के लिए चैंपियन, इनोवेटिव विचारक और दयालु लीडर हैं। 2017 से, चीफ बोएस ने ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज के आगे बढ़ने की सोच वाली, आधुनिक टीम में बदला है, जो यह आज है। हम उनकी सराहना करते हैं और उनकी जारी प्रतिबद्धता के लिए उनके शुकुगुजार हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“जब भी कम्युनिटी को चीफ बोएस की सबसे अधिक जरूरत होती है, तो वे इसका नेतृत्व करने और इसे सेवा देने के लिए लगातार अपनी ड्यूटी से कहीं बढ़कर काम करते हैं। वे फायर सर्विसिज में इनोवेशन के अग्रणी हैं और ऐसी टीम बनाने के लिए समर्पित हैं, जो भागीदारी वाली, जुड़ी हुई आगे बढ़ने की सोच वाली हो। ब्रैम्पटन टीम, उनके साथी कमिशनर्स और कम्युनिटी के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखने का उनका यकीन ही उन्हें असली लीडर के तौर पर सबसे अलग करता है।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“चीफ बोएस एक बेमिसाल लीडर हैं, जो साहस, भरोसे, दया और अखंडता के हमारे कार्पोरेट मूल्यों को शामिल करते हैं। वे आगे बढ़ने की सोच वाले हैं और उन्होंने ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज की संपूर्ण टीम को इंडस्ट्री में लीडर्स और भरोसेमंद कम्युनिटी मेम्बर्स के तौर पर कायम किया है। चीफ आपको बधाई हो!”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“चीफ बोएस ने हमेशा फायर चीफ के तौर पर अपनी ड्यूटीज पूरी करने में कहीं बढ़कर काम किया है। कोविड-19 के आने से, उन्होंने पूरे दिल से अपनी भूमिका को स्वीकारा और कम्युनिटी की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य को सहयोग करने पर केंद्रित मज़बूत और दयालु लीडर के तौर पर शानदार काम किया। मैं, पील रीजनल पुलिस सहित एमरजेंस सर्विस के साझेदारों के साथ उनके सहयोग की कद्र करता हूँ। उनसे अधिक इस सम्मान का कोई और हकदार नहीं है।”

- निशान दुरईअप्पा (Nishan Duraiappah), चीफ, पील रीजनल पुलिस

“2021 के फायर चीफ ऑफ द यीअर कैरियर एंड कम्पोजिट डिपार्टमेंट्स के तौर पर हमें, चीफ बिल बोएस को सम्मानित करने पर बहुत गर्व है। फायर चीफ की भूमिका के लिए, बहुत ही उच्च किस्म के निजी और पेशेवर स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है। फायर चीफ ऑफ द यीअर के अवॉर्ड के लिए, हम ऐसे गुणों पर विचार करते हैं, जो पहले से इस उच्च सीमा से बढ़कर हों। ऐसी श्रेष्ठता को सम्मानित करना, हम सभी को संभावनाओं से भरे बेहतर भविष्य के प्रति प्रेरित करता है, जो चीफ बोएस में है। चीफ बोएस, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को बधाई हो। हम आप सभी की सराहना करते हैं।”

- चीफ जॉन मैकीरनी (John McKearney), प्रेजिडेंट कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ फायर चीफ्स, विसलर फायर चीफ

“कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ फायर चीफ्स (सी.ए.एफ.सी.) और कैनेडा के फायर अंडरराइटर्स सर्वे के द्वारा फायर चीफ ऑफ द यीअर के तौर पर सम्मानित किया जाना बेहद सम्मान की बात है। इस भूमिका में मेरी सफलता पूरी तरह से, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज की टीम के जारी सहयोग और सफलता के कारण है। हमने सामूहिक तौर पर जो भी हासिल किया है, मुझे उस पर बहुत गर्व है और ब्रैम्पटन, हमारी फायर सर्विस तथा शानदार कम्युनिटी को सेवा देना सौभाग्य है।”

- *बिल बोएस (Bill Boyes), चीफ, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

प्रभजोत कैथ (Prabhjot Kainth)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca

